

## हवाई अड्डे पर 11 किलोग्राम सोना जब्त, महिला यात्री गिरफ्तार

भाषा | May 28, 2019, 10.02 PM IST

हैदराबाद, 28 मई (भाषा) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन करोड़ रुपये से ज्यादा का सोना और 4,25,312 रुपये मूल्य का सिंगापुर डॉलर और यूएई का दिरहम जब्त कर मामले में दुबई से आ रही एक महिला यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने पांच सितारा होटल के एक कमरे से 1.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी जब्त की, जहां महिला ठहरी हुयी थी। डीआरआई (हैदराबाद जोनल इकाई) ने मंगलवार तड़के एयरपोर्ट के निकास द्वार पर एक यात्री को पकड़ा और कपड़े तथा मोजे में छिपाकर रखा गया 3,63,52,500 रुपये का 11.1 किलोग्राम सोना जब्त किया। सोने के साथ डीआरआई ने विदेशी मुद्रा भी जब्त की। डीआरआई अधिकारियों ने बताया कि पांच सितारा होटल के एक कमरे की भी तलाशी ली गयी जहां पर महिला पिछले तीन महीने से ठहरती थी।

# हैदराबाद में एयरपोर्ट पर महिला के पास से 11.1 किलो सोना जप्त, 1.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी पकड़ी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Updated Tue, 28 May 2019 08:05 PM IST



जप्त किया गया सोना - फोटो : एएनआई

हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एक महिला यात्री के पास से 11.1 किलो सोना बरामद किया है। सोने की कीमत तीन करोड़ 63 लाख 52 हजार 500 रुपये बताई जा रही है। इसके साथ ही महिला जिस होटल में रुकी थी, डीआरआई ने वहां से 105 करोड़ रुपये कीमत की विदेशी मुद्रा भी बरामद की है।

